


सूचना संख्या

आयकर विभाग से होने का दावा करने वाले जाली संदेशों से सावधान रहें

- कुछ शरारती प्रकृति के व्यक्ति, जो आयकर विभाग से होने का दावा करते हुए फिशिंग लिंक के साथ धोखाधड़ी वाले संदेश भेज रहे हैं और रिफंड के लिए बैंक खाते के विवरण को सत्यापित करने के लिए फिशिंग लिंक पर क्लिक करने का अनुरोध करते हैं।
- इस प्रकार संदेशों में एक लिंक होता है जो उपयोगकर्ताओं को एक वेबपेज पर रिडायरेक्ट कर सकता है और यह वेबपेज आयकर की ई-फाइलिंग वेबसाइट के समान दिखता है। जालसाजों द्वारा भेजे गए फिशिंग लिंक पर क्लिक करने पर, व्यक्ति को उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि जैसी संवेदनशील जानकारी दर्ज करने के लिए कहा जा सकता है।

प्रिय महोदय, आपको रु.15,490/- का आयकर रिफंड स्वीकृत कर दिया गया है, राशि शीघ्र ही आपके खाते में जमा कर दी जाएगी। कृपया अपना खाता नंबर 5xxxxxx4678 सत्यापित करें। यदि यह सही नहीं है, तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर जाकर अपने बैंक खाते की जानकारी अद्यतन करें:
<https://bit.ly/abcdefg>



ऐसा एसएमएस प्राप्त होने पर क्या करें?

यदि आपको ऐसा कोई ई-मेल या एसएमएस प्राप्त होता है जो आयकर विभाग द्वारा भेजे जाने का दावा करता है, तो आपको कभी भी इसका सीधे उत्तर नहीं देना चाहिए।

किसी भी संलग्नक को खोलते समय बहुत सावधान रहें क्योंकि उनमें दुर्भावनापूर्ण कोड हो सकता है जो आपके कंप्यूटर या मोबाइल फोन को संक्रमित कर सकता है।

ऐसे ईमेल या एसएमएस में भेजी गई किसी भी लिंक पर क्लिक करते समय सतर्क रहें और गोपनीय जानकारी जैसे बैंक खाता, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि दर्ज न करें।

आयकर रिफंड स्थिति जांच करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प है इनकम टैक्स ई-फाइलिंग की वेबसाइट पर लॉग-इन करें।